

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – पंचम्

दिनांक -11 - 11- 2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे ।

## मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ

मुहावरा: मुहावरे लाक्षणिक अर्थ युक्त पदबंध होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सशक्त, प्रभावशाली और प्राणवती हो जाती है। मुहावरा वाक्यांश होता है।  
मुहावरों के कुछ उदाहरण:

1. **ऊँट के मुँह में जीरा-** आवश्यकता से कम वस्तु  
दिन-भर के भूखे मजदूर को दो रोटी देना क्या ऊँट के मुँह में जीरे के समान नहीं है।
2. **उँगली पर नचाना-** पूरी तरह वश में करना  
आनंदी ने अपने पति को अपनी उँगली पर नचाने की कोशिश की।
3. **आँख का तारा-** बहुत प्यारा  
आयुष अपने माता-पिता की आँखों का तारा है।

मुहावरा	अर्थ	उदाहरण
आग बबूला होना	क्रोधित होना	बालक को झूठ बोलता देख अध्यापक आग बबूला हो गए।
अपना उल्लू सीधा करना	अपना मतलब	राजेश अपना उल्लू सीधा निकालना करके चलता बना।

खाक छानना	मारा-मारा फिरना	धन-संपत्ति के नष्ट होने पर उसे खाक छाननी पड़ी।
आस्तीन का साँप	कपटी मित्र	रमेश ने मुझे धोखा देकर सिद्ध कर दिया कि वह आस्तीन का साँप है।
घी के दीए जलाना	खुशियाँ मनाना	दीवाली के दिन लोग घी के दीए जलाते हैं।
आँखें फेर लेना	बदल जाना	मोहित सरकारी नौकरी मिलते ही मित्रों से आँखें फेरने लगा।

### मुहावरों के कुछ अन्य उदाहरण

1. आस्तीन का साँप- कपटी मित्र रमेश ने मुझे धोखा देकर सिद्ध कर दिया कि वह आस्तीन का साँप है।
2. आँखें खुलना- होश में आना- वास्तविकता ज्ञात होना- शारदा अपनी नौकरानी पर बड़ा विश्वास करती थी, जब नौकरानी को पैसे चुराते पकड़ा तो शारदा की आँखें खुल गईं।
3. कान भरना- चुगली करना- उमा ने राधिका के कान भरकर उसका सास से झगड़ा करा दिया।
4. जूती चाटना- चापलूसी करना- रामदीन ने अपने अधिकारी की जूती चाटकर अपने बेटे की नौकरी लगवा दी।
5. नाक में दम करना- तंग करना- एक शराबी ने सारे मुहल्ले की नाक में दम कर दिया।
6. ईद का चाँद- कभी-कभी नजर आना- रूही तो आजकल ईद का चाँद बन गई हैं।

लिखकर याद करें।